



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 222]  
No. 222]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 28, 1978/श्रावण 6, 1900  
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 28, 1978/SRAVANA 6, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली 28 जुलाई, 1978

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th July, 1978

CENTRAL EXCISES

सां०कां० 387 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 में और आगे संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

- (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (12वां संशोधन) नियम 1978 है।  
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 में,—  
नियम 2 के खण्ड (ii) में उपखण्ड (घ) और (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित रखे जायेंगे अर्थात् :—  
“(घ) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर, मद्रास, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर, मैसूर, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर, मदुरै, और सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर, कोचीन, के अधीनस्थ किसी केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी के आदेश या विनिश्चय के सम्बन्ध में, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर (अपील), मद्रास।  
(ङ) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर, हैदराबाद और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर, गुंटूर, के अधीनस्थ किसी केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी के आदेश या विनिश्चय के सम्बन्ध में सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर (अपील) हैदराबाद।”

[अधिसूचना सं० 145/78—फा० सं० 223/41/78 के० उ० शु० 6]

एम० के० भारद्वाज, अवर सचिव

G.S.R. 387(E).—In exercise of the powers conferred by section 37 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Excise Rules, 1944, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Excise (12th Amendment) Rules, 1978.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Excise Rules, 1944, in rule 2, in clause (ii) for sub-clauses (d) and (e), the following sub-clauses shall be substituted, namely :—

“(d) in relation to an order or decision of an officer of Central Excise subordinate to the Collector of Central Excise, Madras; the Collector of Central Excise, Mysore; Collector of Central Excise, Madurai and Collector of Customs and Central Excise, Cochin, the Appellate Collector of Central Excise, Madras;

(e) in relation to an order or decision of an officer of Central Excise subordinate to the Collector of Central Excise, Hyderabad and Collector of Central Excise, Guntur, the Appellate Collector of Customs and Central Excise, Hyderabad.”

[Notification No. 145/78-C.E. F. No. 223/41/78-CX.6.]

S. K. BHARDWAJ, Under Secy.

